

To
advertise
in this
Section
Call:
Manoj Gandhi
9820639237

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION 'B' COURT, MAPUSA, GOA
Inventory Proceedings No. 294/2021/A/B
Mr. Augustino Alcantara Martinho
Petitioner
Vs
Late Mrs. Rosaria Marcelina Coelho & 1
Atr.Deceased
To: The Interested Parties:
4. Mr. Titmus Hubert Rodrigues and his wife;
5. Mrs. Maria Rodrigues G. Mrs. Diana
Fernandes and her husband; 7. Mr. Francis
Fernandes 8. Mrs. Sheela Fernandes and her
husband; 9. Mr. Felix Fernandes, all the
aforesaid Interested Parties are residents of
Room No. 8, Dattu Tucaram New Chawal,
Chakala, Andheri (East) Mumbai-400059

WHEREAS the above name Petitioner
has filed application for initiation of inventory
proceedings on the Deaths of the deceased
under Section 375 of the Goa Notaries,
Succession, Special Notaries and Inventory
Proceedings Act, 2013.
AND WHEREAS earlier notice sent to you at
your last known address returned unserved.
AND WHEREAS the Head of Family has
prayed for substituted service by publication
in a English daily newspaper having good
circulation in Mumbai and this Court is
satisfied that this is a fit case ordering such a
service.
NOW THEREFORE, notice is hereby given to
you under Order V Rule 20(1A) of C.P.C.
to appear before this Court on **08/08/2022**
at 10.00 a.m., either in person or by a pleader
duly instructed if any and able to answer all
material questions and you are directed to
produce on the day all the documents upon
which you intend to rely in support of your
defence and to file your say to the application.
TAKE NOTICE THAT, in default of your
appearance on the day before mentioned,
the suit will be heard and determined in
your absence.
GIVEN under my hand and the seal of the
Court, this 8th day of the month of July, 2022
Sd/- (Reina S. Fernandes)
Ad Hoc Senior Civil Judge
'B' Court, Mapusa, Goa

Public Notice
This is bring to the notice of the general public that one ID Card of
1) JAYENDRA CHANDRAKANT WALKAR issued by ICICI Bank Ltd.
having ID card no. **1) 2245406** has been found missing and/or lost on
24.07.2022. Anyone, who finds the said ID card, is requested to return
the said ID card to the Manager Debt Services & Management Group,
ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Off. Chandivli Rd, Powai,
Mumbai 400072.
Therefore, all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified
not to make any payment to any unauthorised person holding the said
ID card no. **1) 2245406**. Please take further notice that anybody
making payment to any person holding the said ID card shall do so at
his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound
and/or responsible for any payment.
Date: 28.07.2022 For ICICI Bank Limited
Place : Mumbai -Sd-

Public Notice
Smt. Malti Kashinath Gandre, a member of Sant Namdev Sahakari
Vasahat Maryadit having address at Plot No.56, Ashok Nagar, Datar
Colony, Bhandup (E), Mumbai - 400042 and holding Flat No.101 on First
floor in Abhang Building of Society, died on 25/02/2017 without making
any nomination. The society hereby invites claims or objections from the
heir or heirs or other claimants/objectors to the transfer of said shares and
interest of deceased member in capital/property of the Society within a
period of 14 days from the publication of this notice, with copies of such
documents and other proofs in support of his/her/their claims/objectors
for transfer of shares and interest of the deceased member in the
capital/property of the society. If no claims/objectors are received within
the period described above, Society shall be free to deal with the shares
and interest of deceased member in capital/property of Society in such
manner as is provided under the Bye-laws of the Society. The
claims/objectors if any, received by Society for transfer of shares and
interest of the deceased member in the capital/property of Society shall be
dealt with in the manner provided under bye-laws of Society.
Place: Mumbai
Date: 28/07/2022

Public Notice
HITESH SONDAGAR a member of the
UNITY COMPLEX BUILDING
NO. 1 S.R.A. CO-OPERATIVE
HOUSING SOCIETY LIMITED,
having address at Pannalal Gosh
Marg, Rajan Pada, Malad West,
Mumbai - 400064 and holding Flat
No. A/64 in the Building No.1 of the
Society, died on 27-11-2020 without
making any nomination.
The Society hereby invites claims
and objections from the heir or heirs
or other claimants/objector
or objectors to the transfer of the said
shares and interest of the deceased
member in the capital/ property
of the society within a period of **15
(Fifteen) days** from the publication
of this notice, with copies of such
documents and other proofs in
support of his/her/their claims/
objections for transfer of shares and
interest of the deceased member in
the capital/property of the society. If
no claims/objectors are received
within the period prescribed above,
the society shall be free to deal with
the shares and interest of the
deceased member in the capital/
property of the society in such
manner as is provided under the
bye-laws of the society. The claims
/objection, if any, received by the
society for transfer of shares and
interest of the deceased member in
the capital/property of the society
shall be dealt with in the manner
provided under the Bye-laws of the
society. A copy of the registered
Bye-laws of the society is available
for inspection by the claimants/
objectors, in the office of the
secretary of the society. The date of
publication of the notice till the date
of expiry of its period.
For and on behalf of
Unity Complex Building No.1
S.R.A. Co-operative Housing
Society Limited
Sd/-
(Chairman / Secretary / Treasurer)
Place: Mumbai Date: 27-07-2022

Public Notice
Notice is hereby given that as per information given by Mrs.
Anuradha Pramod Salvi that she is owner in respect of Flat No.103,
1st Floor, Yashomati Co-operative Housing Society Ltd., 288A, Jaihind
Colony, G. Gupte Road, Dombivli (West), Dist-Thane that the original
allotment letter issued by Yashomati Co-operative Housing Society
Ltd., to Mrs. Anuradha Pramod Salvi in respect of the above mentioned
Flat is misplaced and not traceable. The complaint is lodged by our
client Mrs. Anuradha Pramod Salvi to Vishnu Nagar Police Station,
Dombivli (West) under No.832/2022 and police station issued Missing
Certificate dated 21/07/2022. Mrs. Anuradha Pramod Salvi intend to
sell the said Flat No.103 to the prospective purchaser/s.
If any person / persons finds above mentioned original allotment
letter and/or have any type of right such as Lien, mortgage, maintenance,
gift, sale/purchase or any type of change over the said flat, he/she/they shall
inform the same in writing within 15 days of publication of this notice at
below mentioned address. If any objection is not received, within given
period, my client Mrs. Anuradha Pramod Salvi will be free to sell of the
above mentioned flat to the prospective Purchaser/s and the objections
received thereafter shall not be entertained.
Date : 28/07/2022 Sd/-
Add : A/5 Sanyogta Society, Pt. Deendayal Beena M. Sansare
Road Anand Nagar, Dombivli (West), Dist.Thane. Advocate

Public Notice
"TAKE NOTICE" That My Client (1) SMT. MUKTABEN MADHAVJI BHAJI
PATEL and (2) MR. CHIRAG MADHAVJI BHAJI PATEL, both are the
OWNERS and in Absolute Possession of New Flat Premises situated at
Flat No. E/22, New Gitanjali CHS. Ltd., Raheja Township, Malad (East),
Mumbai - 400 097, who is holding 05 Fully Paid-up Shares of Rs. 100/-
each bearing Distinctive Nos. 471 to 475 (Both inclusive) issued on
Share Certificate No. 095, Member's Register No. 95, Dated - 30/06/1990.
That My Client/s are in possession of following Original Documents in
respect of above Flat Premises from the Chain of Ownership Documents.
1. Original Agreement bearing No. BDR - 12/04220/2006,
Dated -02/06/2006 & Share Certificate.
My Clients are the Lawful Owner/s of above said Flat Premises and there
is any one claimants except my above Clients. If any person having any
right, title, claim or interest in or demand pertaining to or whatsoever in
or upon the said Flat Premises, or as any part thereof, by way or virtue of
Sale, Mortgage, Lease, Tenancy, License, Lien, Assignment, Demise,
Trust, Gift, Charge, Possession, Exchange, Easement, Development
Right, Inheritance, Right of way Decree, Litigation, Merger, Demerger,
etc. or otherwise whatsoever expressly and in writing with supporting
documents within 15 (Fifteen) Days from date of Publication of this
Notice, failing which, any such right, title, interest or claim, if any, shall
be considered to have been voluntarily and consciously waived, forfeited,
abandoned, given up, relinquished or surrendered.
ADV. R. P. TIWARI Advocate, High Court, Add: Room No. 404, Vitthal
Rukmini Niwas, Near Kesari Park, Ambawadi, Nallasopara (East),
District - Palghar - 401 209. Email : rajendraprasadtiwari275@gmail.com
Mob. No. 9326253573 / 9967230834 Dated : 27/07/2022

Public Notice
Take notice that Shop No. 006, & Shop No. 005, Ground Floor, 'C'
Wing, SAFALYA EXTENSION CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY
LTD., Kulgao, Badliapur - West, Tal. Ambarnath, Dist. Thane, now
owned and possessed by Shri. Narayan Yashwant Abhyankar and the
member of said society. That previously the said Commercial Shop No.
006 was owned by Mrs. Suvana Narayan Abhyankar as per Agreement
dated 21/05/1996 with M/s. Shree Construction Company, and the
same is Registered at Sub Registrar Ullhasnagar under No Cha.
1338/1996 dated 21/05/1996. & Shop No. 005 was gifted to Mrs.
Suvana Narayan Abhyankar by Shri. Vijay Yashwant Abhyankar as per
Gift Deed dated 24/04/2002 and the same is Registered at Sub
Registrar Ullhasnagar under No. 1652 dated 24/04/2002. Thereafter
Mrs. Suvana Narayan Abhyankar died on 27/12/2016 and after her
death (1) Mr. Ganesh Narayan Abhyankar - (Son), (2) Mrs. Gauri Anup
Ghangrekar - (Married Daughter), & (3) Shri. Narayan Yashwant
Abhyankar - (Husband), are the only legal heirs.
If any other legal heirs, persons have any claim like mortgage, lien, sale,
any right, gift, etc., over the said Shops, can claim in writing with the
undersigned office within the period of 7 (Seven) days from Publication
of this Notice. Afterwords no such a claim shall be entertained and
further action shall complete, which please note.
ADVOCATE DILIP K. GANDHI
3, Satchidanand Society, Talk Road,
Opp. HDFC Bank, Dombivli (East).
Place : Dombivli
Date : 28/07/2022 Mobile : 9892176055

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 50% owner of Flat No. 42, 1st
Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Parag
Dhirajal Gandhi, and Mr. Hemal Dhirajal
Gandhi intend to release their share (17%
each) in the said Flat, in favour of legal
heir viz. Mr. Hiten Dhirajal Gandhi by way
of Release Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/-
K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 100% owner of Flat No. 49,
1st Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Hiten
Dhirajal Gandhi holding 33% share and
Mr. Hemal Dhirajal Gandhi holding 33%
share intend to release their total share in
the said Flat, in favour of legal heir viz. Mr.
Parag Dhirajal Gandhi by way of Release
Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/- K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
By This Notice, Public in general is informed
that Late Mr. Vishal Semmath Kale a bonafide
member (First & 50% share holder) jointly with
Smt. Anuja Vishal Kale (Second and 50% share-
holder) for the residential premises located at,
Flat No. D 404, measuring 889 Sq. (Built up
area) 99.14 Sq. Mtrs. (Built up area) in Building
known as "LOTUS APARTMENT CO OP HSG
SOC PROPOSED" PLR/ VSI HSG/ (TC) 0000, at
Survey No.102 & 103, Building Number
54, Situated at Funista Road, Nallasopara (W)
Tal Vasal Dist. Thane 401203.
Shri. Vishal Semmath Kale died intestate on
01/10/2021, on behalf of the client Mrs. Anuja
Vishal Kale W/o. Late Mr. Vishal Semmath Kale,
is claiming transfer of the undivided 50% shares
and interest in the capital/property of the
society belonging to the deceased being wife
and one of the legal heir of the deceased with an
objection of other legal heir Mrs. Ratnaarabha
Semmath Kale. Mother of the deceased, the
undersigned advocate hereby invites. All the
banks, financial institution, person etc., to
intimate to my client or me as their counsel
whatsoever regarding the claims, objections
from other heirs or claimants or objectors, any
person having right, title, interest in the
application property by way of release/claim
heirs etc., for the transfer of the said shares and
interest of the deceased member in the property
of the society in favour of the client within a
period of 15 days from the publication of this
notice with sufficient proof may inform to
undersigned, failing which the society will
transfer the undivided 50% shares and interest
in the capital/property of the belonging to the
deceased in the name of Mrs. Anuja Vishal Kale,
and it will be treated that nothing objections or
claim is their over it, thereafter any claim or
objection will not be considered.
Dated this 28th day of July, 2022. Sd/-
NEERAJ PANDEY
Advocate High Court, Bombay
Chamber Office No. 8, 1st Floor, Sunshine
Heights, Opp. Nallasopara Railway Station,
Nallasopara (East) - 401209,
Mobile No. 9819924871/8689011417

Public Notice
Notice is hereby given that as per information given by Mrs.
Anuradha Pramod Salvi that she is owner in respect of Flat No.103,
1st Floor, Yashomati Co-operative Housing Society Ltd., 288A, Jaihind
Colony, G. Gupte Road, Dombivli (West), Dist-Thane that the original
allotment letter issued by Yashomati Co-operative Housing Society
Ltd., to Mrs. Anuradha Pramod Salvi in respect of the above mentioned
Flat is misplaced and not traceable. The complaint is lodged by our
client Mrs. Anuradha Pramod Salvi to Vishnu Nagar Police Station,
Dombivli (West) under No.832/2022 and police station issued Missing
Certificate dated 21/07/2022. Mrs. Anuradha Pramod Salvi intend to
sell the said Flat No.103 to the prospective purchaser/s.
If any person / persons finds above mentioned original allotment
letter and/or have any type of right such as Lien, mortgage, maintenance,
gift, sale/purchase or any type of change over the said flat, he/she/they shall
inform the same in writing within 15 days of publication of this notice at
below mentioned address. If any objection is not received, within given
period, my client Mrs. Anuradha Pramod Salvi will be free to sell of the
above mentioned flat to the prospective Purchaser/s and the objections
received thereafter shall not be entertained.
Date : 28/07/2022 Sd/-
Add : A/5 Sanyogta Society, Pt. Deendayal Beena M. Sansare
Road Anand Nagar, Dombivli (West), Dist.Thane. Advocate

Public Notice
PROPERTY BEING SITUATED AT FLAT NO. 502, BUILDING NO 16, 5TH FLOOR
XRBIAVANGAN, KHADYACHAPADA, KARIJAT, RAIGAD, MAHARASHTRA - 410201
(AREA MEASURING 434 SQ. FT)
WHICH IS BOUNDED AS UNDER:
EAST : AS PER TITLE DEEDS WEST : AS PER TITLE DEEDS
NORTH : AS PER TITLE DEEDS SOUTH : AS PER TITLE DEEDS
DATE : 25.07.2022 AUTHORIZED OFFICER
PLACE : RAIGAD ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 50% owner of Flat No. 42, 1st
Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Parag
Dhirajal Gandhi, and Mr. Hemal Dhirajal
Gandhi intend to release their share (17%
each) in the said Flat, in favour of legal
heir viz. Mr. Hiten Dhirajal Gandhi by way
of Release Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/-
K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 100% owner of Flat No. 49,
1st Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Hiten
Dhirajal Gandhi holding 33% share and
Mr. Hemal Dhirajal Gandhi holding 33%
share intend to release their total share in
the said Flat, in favour of legal heir viz. Mr.
Parag Dhirajal Gandhi by way of Release
Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/- K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
By This Notice, Public in general is informed
that Late Mr. Vishal Semmath Kale a bonafide
member (First & 50% share holder) jointly with
Smt. Anuja Vishal Kale (Second and 50% share-
holder) for the residential premises located at,
Flat No. D 404, measuring 889 Sq. (Built up
area) 99.14 Sq. Mtrs. (Built up area) in Building
known as "LOTUS APARTMENT CO OP HSG
SOC PROPOSED" PLR/ VSI HSG/ (TC) 0000, at
Survey No.102 & 103, Building Number
54, Situated at Funista Road, Nallasopara (W)
Tal Vasal Dist. Thane 401203.
Shri. Vishal Semmath Kale died intestate on
01/10/2021, on behalf of the client Mrs. Anuja
Vishal Kale W/o. Late Mr. Vishal Semmath Kale,
is claiming transfer of the undivided 50% shares
and interest in the capital/property of the
society belonging to the deceased being wife
and one of the legal heir of the deceased with an
objection of other legal heir Mrs. Ratnaarabha
Semmath Kale. Mother of the deceased, the
undersigned advocate hereby invites. All the
banks, financial institution, person etc., to
intimate to my client or me as their counsel
whatsoever regarding the claims, objections
from other heirs or claimants or objectors, any
person having right, title, interest in the
application property by way of release/claim
heirs etc., for the transfer of the said shares and
interest of the deceased member in the property
of the society in favour of the client within a
period of 15 days from the publication of this
notice with sufficient proof may inform to
undersigned, failing which the society will
transfer the undivided 50% shares and interest
in the capital/property of the belonging to the
deceased in the name of Mrs. Anuja Vishal Kale,
and it will be treated that nothing objections or
claim is their over it, thereafter any claim or
objection will not be considered.
Dated this 28th day of July, 2022. Sd/-
NEERAJ PANDEY
Advocate High Court, Bombay
Chamber Office No. 8, 1st Floor, Sunshine
Heights, Opp. Nallasopara Railway Station,
Nallasopara (East) - 401209,
Mobile No. 9819924871/8689011417

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 50% owner of Flat No. 42, 1st
Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Parag
Dhirajal Gandhi, and Mr. Hemal Dhirajal
Gandhi intend to release their share (17%
each) in the said Flat, in favour of legal
heir viz. Mr. Hiten Dhirajal Gandhi by way
of Release Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/-
K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 100% owner of Flat No. 49,
1st Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Hiten
Dhirajal Gandhi holding 33% share and
Mr. Hemal Dhirajal Gandhi holding 33%
share intend to release their total share in
the said Flat, in favour of legal heir viz. Mr.
Parag Dhirajal Gandhi by way of Release
Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/- K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
By This Notice, Public in general is informed
that Late Mr. Vishal Semmath Kale a bonafide
member (First & 50% share holder) jointly with
Smt. Anuja Vishal Kale (Second and 50% share-
holder) for the residential premises located at,
Flat No. D 404, measuring 889 Sq. (Built up
area) 99.14 Sq. Mtrs. (Built up area) in Building
known as "LOTUS APARTMENT CO OP HSG
SOC PROPOSED" PLR/ VSI HSG/ (TC) 0000, at
Survey No.102 & 103, Building Number
54, Situated at Funista Road, Nallasopara (W)
Tal Vasal Dist. Thane 401203.
Shri. Vishal Semmath Kale died intestate on
01/10/2021, on behalf of the client Mrs. Anuja
Vishal Kale W/o. Late Mr. Vishal Semmath Kale,
is claiming transfer of the undivided 50% shares
and interest in the capital/property of the
society belonging to the deceased being wife
and one of the legal heir of the deceased with an
objection of other legal heir Mrs. Ratnaarabha
Semmath Kale. Mother of the deceased, the
undersigned advocate hereby invites. All the
banks, financial institution, person etc., to
intimate to my client or me as their counsel
whatsoever regarding the claims, objections
from other heirs or claimants or objectors, any
person having right, title, interest in the
application property by way of release/claim
heirs etc., for the transfer of the said shares and
interest of the deceased member in the property
of the society in favour of the client within a
period of 15 days from the publication of this
notice with sufficient proof may inform to
undersigned, failing which the society will
transfer the undivided 50% shares and interest
in the capital/property of the belonging to the
deceased in the name of Mrs. Anuja Vishal Kale,
and it will be treated that nothing objections or
claim is their over it, thereafter any claim or
objection will not be considered.
Dated this 28th day of July, 2022. Sd/-
NEERAJ PANDEY
Advocate High Court, Bombay
Chamber Office No. 8, 1st Floor, Sunshine
Heights, Opp. Nallasopara Railway Station,
Nallasopara (East) - 401209,
Mobile No. 9819924871/8689011417

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 50% owner of Flat No. 42, 1st
Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Parag
Dhirajal Gandhi, and Mr. Hemal Dhirajal
Gandhi intend to release their share (17%
each) in the said Flat, in favour of legal
heir viz. Mr. Hiten Dhirajal Gandhi by way
of Release Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/-
K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 100% owner of Flat No. 49,
1st Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Hiten
Dhirajal Gandhi holding 33% share and
Mr. Hemal Dhirajal Gandhi holding 33%
share intend to release their total share in
the said Flat, in favour of legal heir viz. Mr.
Parag Dhirajal Gandhi by way of Release
Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/- K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
By This Notice, Public in general is informed
that Late Mr. Vishal Semmath Kale a bonafide
member (First & 50% share holder) jointly with
Smt. Anuja Vishal Kale (Second and 50% share-
holder) for the residential premises located at,
Flat No. D 404, measuring 889 Sq. (Built up
area) 99.14 Sq. Mtrs. (Built up area) in Building
known as "LOTUS APARTMENT CO OP HSG
SOC PROPOSED" PLR/ VSI HSG/ (TC) 0000, at
Survey No.102 & 103, Building Number
54, Situated at Funista Road, Nallasopara (W)
Tal Vasal Dist. Thane 401203.
Shri. Vishal Semmath Kale died intestate on
01/10/2021, on behalf of the client Mrs. Anuja
Vishal Kale W/o. Late Mr. Vishal Semmath Kale,
is claiming transfer of the undivided 50% shares
and interest in the capital/property of the
society belonging to the deceased being wife
and one of the legal heir of the deceased with an
objection of other legal heir Mrs. Ratnaarabha
Semmath Kale. Mother of the deceased, the
undersigned advocate hereby invites. All the
banks, financial institution, person etc., to
intimate to my client or me as their counsel
whatsoever regarding the claims, objections
from other heirs or claimants or objectors, any
person having right, title, interest in the
application property by way of release/claim
heirs etc., for the transfer of the said shares and
interest of the deceased member in the property
of the society in favour of the client within a
period of 15 days from the publication of this
notice with sufficient proof may inform to
undersigned, failing which the society will
transfer the undivided 50% shares and interest
in the capital/property of the belonging to the
deceased in the name of Mrs. Anuja Vishal Kale,
and it will be treated that nothing objections or
claim is their over it, thereafter any claim or
objection will not be considered.
Dated this 28th day of July, 2022. Sd/-
NEERAJ PANDEY
Advocate High Court, Bombay
Chamber Office No. 8, 1st Floor, Sunshine
Heights, Opp. Nallasopara Railway Station,
Nallasopara (East) - 401209,
Mobile No. 9819924871/8689011417

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 50% owner of Flat No. 42, 1st
Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Parag
Dhirajal Gandhi, and Mr. Hemal Dhirajal
Gandhi intend to release their share (17%
each) in the said Flat, in favour of legal
heir viz. Mr. Hiten Dhirajal Gandhi by way
of Release Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/-
K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
Notice is hereby given to the public at large that Mrs. Nayana Dhirajal Gandhi
who was the 100% owner of Flat No. 49,
1st Floor, Building No. A6/17, Yashadavini
Co-op Hsg. Soc. Ltd., LIC Colony, Near
Karuna Hospital, Borivali (West), Mumbai
- 400103 adm. 369 sqt. carpet area, died
intestate on 19 April 2019 leaving behind
legal heirs: 1) Mr. Hiten Dhirajal Gandhi,
2) Mr. Parag Dhirajal Gandhi, and 3) Mr.
Hemal Dhirajal Gandhi. Mr. Hiten
Dhirajal Gandhi holding 33% share and
Mr. Hemal Dhirajal Gandhi holding 33%
share intend to release their total share in
the said Flat, in favour of legal heir viz. Mr.
Parag Dhirajal Gandhi by way of Release
Deed dated 23/05/2022.
Any person or persons having right, title or
interest by way of inheritance or claim
otherwise against the said Flat should
send their claim in writing to the
undersigned alongwith the documentary
evidence in support of the claim hereof
within 15 days of publication of this notice.
Sd/- K. M. PANDEY (ADVOCATE)
B/403, Jaya Park C.H.S. Ltd.,
Near Royal College, & Iscon Temple,
Mira Road (East), Dist. Thane 401 107.
Date: 28/07/2022 Place: Mumbai

Public Notice
By This Notice, Public in general is informed
that Late Mr. Vishal Semmath Kale a bonafide
member (First & 50% share holder) jointly with
Smt. Anuja Vishal Kale (Second and 50% share-
holder) for the residential premises located at,
Flat No. D 404, measuring 889 Sq. (Built up
area) 99.14 Sq. Mtrs. (Built up area) in Building
known as "LOTUS APARTMENT CO OP HSG
SOC PROPOSED" PLR/ VSI HSG/ (TC) 0000, at
Survey No.102 & 103, Building Number
54, Situated at Funista Road, Nallasopara (W)
Tal Vasal Dist. Thane 401203.
Shri. Vishal Semmath Kale died intestate on
01/10/2021, on behalf of the client Mrs. Anuja
Vishal Kale W/o. Late Mr. Vishal Semmath Kale,
is claiming transfer of the undivided 50% shares
and interest in the capital/property of the
society belonging to the deceased being wife
and one of the legal heir of the deceased with an
objection of other legal heir Mrs. Ratnaarabha
Semmath Kale. Mother of the deceased, the
undersigned advocate hereby invites. All the
banks, financial institution, person etc., to
intimate to my client or me as their counsel
whatsoever regarding the claims, objections
from other heirs or claimants or objectors, any
person having right, title, interest in the
application property by way of release/claim
heirs etc., for the transfer of the said shares and
interest of the deceased member in the property
of the society in favour of the client within a
period of 15 days from the publication of this
notice with sufficient proof may inform to
undersigned, failing which the society will
transfer the undivided 5

क्या राजभर को दोबारा मंत्री बनायेंगे योगी?

लखनऊ. उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। पहले कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए साइकिल की सवारी को छोड़ दिया, तो अब सपा के सहयोगी दल भी एक-एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मित्रों के ओम प्रकाश राजभर को मनाया था कि उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े क्योंकि इस क्षेत्रीय दल का पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में खासा जनाधार है।

राजभर की पार्टी के छह विधायक भी चुनकर आये हैं। लेकिन सियासी फायदे के लिए हुई इस दस्ती में जब अहंकार आड़े आने लगा, तो इसका भी वही हथ्र हुआ, जो अक्सर ऐसी मित्रता का होता है। वैसे तो अखिलेश की अपने चाचा शिवपाल यादव से भी कभी नहीं निभी और उन्होंने सपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी लेकिन साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मना लिया गया था। लेकिन अब अखिलेश ने शिवपाल और राजभर दोनों को ही सियासी तलाक देकर सपा के साये में रहने से आजाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव को एक चिट्ठी लिखकर



शिवपाल और राजभर मिलकर तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं

यूपी के सियासी हलकों में एक कयास ये भी लगाया जा रहा है शिवपाल और राजभर मिलकर तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं लेकिन इसकी संभावना कम है। वह इसलिये कि हर नेता राजनीति में पहले अपना फायदा ही देखता है और उसके मुताबिक ही फैसला लेता है। राजभर को बीजेपी के साथ जाने में अपना फायदा दिख रहा है क्योंकि छह विधायकों वाली उनकी पार्टी को योगी सरकार में एक मंत्री पद मिलने के आसार हैं। हालांकि साल 2017 में बनी योगी सरकार में भी राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन मई 2019 में उन्हें गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था।

जमकर लताड़ लगाई है लेकिन साथ ही दोनों नेताओं को खुली छूट भी दे दी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। राजभर ने सपा के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका (अखिलेश यादव) तलाक आ गया है, हमने उनके तलाक को कबूल कर लिया है, वहीं, शिवपाल यादव ने ट्वीट किया कि मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी

पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद. बता दें कि सपा के इन दोनों ही सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का विरोध करते हुए उन्हें अपना समर्थन न देने का ऐलान किया था। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के दिन ही वोटिंग से एन पहले पार्टी मुखिया

अखिलेश यादव को ये बयान देने पर मजबूर होना पड़ा था कि जिस पार्टी को जो फैसला लेना है, ले सकती है। ओपी राजभर और शिवपाल यादव दोनों ने ही एनडीए की उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया था। वहीं हाल ही में ओपी राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने राजभर को वार्ड-श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसलिये सियासी हलकों में यही कयास लगाए जा रहे हैं ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में राजभर की पार्टी एनडीए का ही हिस्सा थी लेकिन पिछले चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बात न करने से उन्होंने बीजेपी को छोड़कर अखिलेश की साइकिल की सवारी कर ली थी। सपा द्वारा राजभर को भेजे गए पत्र में कहा गया है राजभर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं शिवपाल यादव को संबोधित पत्र में कहा गया है कि शिवपाल यादव जी अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है।

भाजपा का क्या है 2024 प्लान; जो दे रहा अखिलेश को टेंशन

नई दिल्ली. समाजवादी नेता और मूल्यम सिंह यादव के करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। यही नहीं मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, असेंबली के स्पीकर सतीश महाना समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे।



वहीं लंबे समय तक हरमोहन की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में दिखने वाले सपाईं नदारद रहे। हरमोहन समाजवादी नेता होने के साथ ही अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। यही वजह थी कि सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में 12 राज्यों के यादव जुटे थे। हरमोहन यादव के बेटे सुखराम यादव और उनके पोते मोहित यादव अब भाजपा के सदस्य हैं।

साफ है कि हरमोहन यादव न सिर्फ समाजवादी विरासत के अगुवा थे बल्कि बिगड़ारी में भी एक साख रखते थे। ऐसे में भाजपा को उनके परिवार से करीबी यादव वोट बैंक को भी एक संदेश देने की कोशिश है, जिससे आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। वह भी ऐसे समय में जब उनकी चाचा शिवपाल यादव से अनबन चल रही है और अपर्णा यादव पहले ही भाजपा की मेंबर हो चुकी हैं। हाल के

वर्षों में अखिलेश यादव की पहली चुनावी परीक्षा 2024 के आम चुनाव में होने वाली है और यादवों का थोड़ा भी भाजपा की ओर झुकाव अखिलेश के लिए क्लेश बढ़ा देगा। खासतौर पर आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने पहले ही ऐसे संकेत दिए हैं कि भाजपा गढ़ में भी संघ लगा सकती है।

पसमांदा पर फोकस और उपचुनावों के नतीजों से चिंता-अखिलेश की यह टेंशन इसलिए भी दोहरा हो जाती है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा से आह्वान किया है कि वह पसमांदा मुसलमानों पर फोकस करे। मुस्लिमों में पसमांदा की आबादी 80 से 85 फीसदी बताई जाती है। कई आंकड़ों में दावा किया गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8 फीसदी मुस्लिम वोट मिला था। यही वजह है कि अब वह आगे की तैयारियों के लिए उत्साह में है और स्नेह यात्रा जैसे प्रयोगों से यदि उसे मुस्लिमों का

समीकरण बदले तो इन जिलों में बढ़ेगी अखिलेश यादव की मुश्किलें

ओबीसी और दलित वर्ग के बड़े हिस्से पर दावेदारी के बाद भाजपा ने यादव और मुस्लिमों के बीच अपना अभियान तेज किया है। यदि उसे इन वर्गों का थोड़ा भी हिस्सा मिलता है तो फिर यादव बहुल फिरोजाबाद, मैनुपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, आजमगढ़ जैसे जिलों में समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, बरारामपुर, सहारनपुर, हापुड़, बरेली, श्रावस्ती, शामली, मेरठ, बागपत में हालात बदले नजर आ सकते हैं। इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी 25 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में सपा उन्हें अपने अनुकूल मानती रही है, लेकिन रामपुर के नतीजों ने उसकी इस दावेदारी को भी कमजोर किया है। यह समाजवादी पार्टी के लिए चेतावनी जैसा है।

स्नेह मिला तो फिर नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। भले ही भाजपा मुस्लिमों का बड़ा वोट न हो पाए, लेकिन कई वोटकटवा पार्टियों में यदि वह भी हिस्सेदार बन जाए तो भी समीकरण बदलने की संभावना होगी।



भाजपा के 16 या जेएमएम के 21 विधायक?

रांची. झारखंड में जल्द ही बड़े राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। इस क्रम में बयानबाजी का दौर भी ज़ोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की ओर से सोमवार को एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा

गया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायकों ने पार्टी तोड़ने का मन बनाया है।

वहीं भाजपा ने इस सनसनीखेज दावे को हास्यास्पद और सरासर झूठ बताते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद समाप्ति के कगार पर है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा झारखंड में हेमंत सोरेन या बीजेपी, किसको लगेगा झटका

किया है कि जेएमएम के 21 विधायकों ने विद्रोह करने का मन बना लिया है।

जेएमएम के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदेश भाजपा ने तृत्व और विधायक दल के स्वयंभू नेता से नाराज होकर बीजेपी के 16 विधायकों ने अलग गुट बनाकर सरकार को समर्थन देने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि इन

बीजेपी विधायकों को महाराष्ट्र की तरह गुप्त तैयार करने में महारत हासिल है। पार्टी ने इस पर गंभीरता से विचार करने का मन बनाया है, अगर बीजेपी को ये 16 विधायक अलग गुट बनाकर सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, तो जेएमएम इसका स्वागत करेगा।

राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के सभी 30 विधायकों ने सबूत दे दिया- भट्टाचार्य से जब वह पूछा कि झामुमो के कई विधायकों की सरकार से नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह इटैकट है।

एक्सिस बैंक ने पहली तिमाही के परिणाम किए घोषित



नयी दिल्ली, भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष-23 की पहली तिमाही के अपने परिणामों की आज घोषणा की। बैंक ने इस तिमाही में 4,125 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज कराया, जबकि वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में यह 2,160 करोड़ रुपये था।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वर्ष-दर-वर्ष और 6 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही के आधार पर बढ़कर वित्त वर्ष-23 की पहली तिमाही में 9,384 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 7,760 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में, इसका शुद्ध ब्याज आय मार्जिन एनआईएम 3.60 प्रतिशत रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14 आधार अंक और तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 11 आधार अंक की वृद्धि हुई।

कासा में 16 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष और 1 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही की वृद्धि हुई, जबकि कासा

अनुपात 43 प्रतिशत रहा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 53 आधार अंकों का सुधार हुआ। बैंक के परिचालन राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही के 11,119 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में 12,383 करोड़ रुपये हो गया। 30 जून 2022 को, बैंक का सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए स्तर क्रमशः 2.76 प्रतिशत और 0.64 प्रतिशत रहा, जबकि 30 जून 2021 को यह क्रमशः 3.85 प्रतिशत और 1.20 प्रतिशत था।

बैंक की शुल्क आय 34 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ 3,576 करोड़ रुपये हो गई। खुदरा शुल्क में 43 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई और कुल शुल्क में इसने 66 प्रतिशत का योगदान दिया। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में, लाभ सहित कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात सीएआर 17.83 प्रतिशत रहा और सीटीटी 1 अनुपात 15.16 प्रतिशत रहा।

इमामी ने पेश किया मसालों का नया ब्रांड 'मंत्रा'

लखनऊ, 27 जुलाई (वार्ता) इमामी समूह की ब्रांडेड खाद्य निर्माण इकाई इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, ने बुधवार को 'मंत्रा' स्पाइसेस को देश भर के घरेलू बाजार में पेश किया। कंपनी का दावा है कि राजस्थान में जयपुर स्थित आधुनिक फ़ैक्ट्री में इन मसालों को क्रायोजेनिक फ्राइडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जहाँ इन मसालों को फ्रीस्ट्री तक मौजूद रहते हैं, जिससे बेहतर रंग, स्वाद और सुगंध मिलती है। दूसरी ओर बाजार में उपलब्ध मसालों को एक परंपरागत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए पीसा जाता है, जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होती है, जिससे इनमें 40 प्रतिशत तक ही आवश्यक तेल रह पाते हैं। नई श्रेणी की लॉन्चिंग पर इमामी एग्रोटेक के निदेशक कृष्ण मोहन न्यायपति ने कहा कि इस ब्रांड को मसालों की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए इंटरनेशनल टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रूसेल्स (यूरोपीय सुपीरियर टेस्ट अवॉर्ड मिल चुका है। इसके अलावा मंत्रा मसालों की मिश्रित वैरायटी जिपलॉक पैकिंग में आती है, जिससे लंबे समय तक इन मसालों की सुगंध और गुणवत्ता बरकरार रहती है।

सेंसेक्स-निफ्टी एक प्रतिशत उछले

मुंबई 27 जुलाई (वार्ता) वैश्विक बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणाम से उत्साहित निवेशकों की आईटी, टेक, रियल्टी, हेल्थकेयर, ऑटो समेत अठारह समूहों में हुई लिवाली से पिछले लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में रौनक लौट आई तथा संसेक्स और निफ्टी करीब एक प्रतिशत की तेजी पर रहे।

बीएसई का तीस शेयरों वाला सेवेदी सूचकांक संसेक्स 547.83 अंक की छलांग लगाकर 55816.32 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 157.95 अंक उछलकर रंग, स्वाद और सुगंध मिलती है। दूसरी ओर बाजार में उपलब्ध मसालों को एक परंपरागत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए पीसा जाता है, जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होती है, जिससे इनमें 40 प्रतिशत तक ही आवश्यक तेल रह पाते हैं। नई श्रेणी की लॉन्चिंग पर इमामी एग्रोटेक के निदेशक कृष्ण मोहन न्यायपति ने कहा कि इस ब्रांड को मसालों की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए इंटरनेशनल टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रूसेल्स (यूरोपीय सुपीरियर टेस्ट अवॉर्ड मिल चुका है। इसके अलावा मंत्रा मसालों की मिश्रित वैरायटी जिपलॉक पैकिंग में आती है, जिससे लंबे समय तक इन मसालों की सुगंध और गुणवत्ता बरकरार रहती है।



देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड (एमएसआईएल) का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जारी परिणाम में सालाना आधार पर 130 प्रतिशत उछलकर 1012.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। साथ ही देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ करार होने से ब्रिटेन के बाजार में उसे एक अरब डॉलर का खुदरा कारोबार होने की उम्मीद है। इससे हुई लिवाली से बीएसई में अठारह समूह में तेजी रही। इस दौरान आईटी 1.34, टेक 1.12,

बेसिक मेटैरियल्स 1.17, हेल्थकेयर 1.73, इंफ्रस्ट्रक्चर 1.12, बैंकिंग 1.07, कैपिटल गुड्स 1.68, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.09, तेल एवं गैस 1.00 और रियल्टी समूह के शेयर 1.01 प्रतिशत चढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलाजुला रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.40, जर्मनी का डैक्स 0.11 और जापान का निक्केई 0.22 प्रतिशत चढ़ गया जबकि हांगकांग का हेंगसेंग 1.13 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.05 प्रतिशत उतर गया।

निप्पोन ने एयरकेयर वीजी और सूमो एक्सट्रा डस्ट शील्ड किया लॉन्च

नयी दिल्ली 27 जुलाई (वार्ता) पेंट निर्माता निप्पोन पेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने एयरकेयर वीजी और सूमो एक्सट्रा डस्ट शील्ड का लॉन्च करने की घोषणा की है।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि एयरकेयर वीजी इंटीरियर सतहों के लिए है और इसमें सिल्वर आयन और यूनिफ़ैब्रिक्शन टेक्नोलॉजी है, जो घर के अंदर के वातावरण को सुरक्षित व स्वच्छ बनाने में मदद करती है। सूमो एक्सट्रा डस्ट शील्ड को वाटर-बेस्ड एक्सट्रीमर इमलशन के साथ कलर लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह सालों तक दीवारों को चमकदार और स्वच्छ बनाकर रखता है। निप्पोन पेंट के सभी उत्पाद ईको-फ्रेंडली हैं और जापानी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए हैं। कंपनी के डेकोरेटिव डिवायज के अध्यक्ष महेश एस. आनंद ने कहा, 'निप्पोन पेंट आपको दीवारों की सुरक्षा करने और उनकी खूबसूरती बढ़ाने वाले ईकोफ्रेंडली उत्पादों व सेवाओं का विकास कर पेट उद्योग में क्रांति ला रहा है। एयरकेयर वी जी और सूमो एक्सट्रा डस्ट शील्ड के लॉन्च के साथ हम पेंट में अद्वितीय इन्वोवेशन लाते रहेंगे। हमारा विश्वास है कि अपने फंक्शनल गुणों, विशेषताओं और मूल्य के कारण बाजार में इन नए उत्पादों को बहुत पसंद किया जाएगा।'

GAGAN GASES LIMITED					
REGD. OFFICE-602, SECTOR III, PITHAMPUR, DIST. DHAR (M.P.) Mob. No. 6263493543 website : www.gagangases.com, email : gm@gagangases.com, CIN : L24111MP1986PLC004228					
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2022					
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2022	31.03.2022		30.06.2021
Un Audited	Audited	Un Audited	Audited		
1	Total Income from Operations :	90.47	77.48	53.00	290.78
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.96	7.05	2.00	26.95
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.96	7.05	2.00	26.95
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.96	-14.18	2.00	5.72
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	9.96	-14.18	2.00	5.72
6	Equity Share Capital	451.85	451.85	451.85	451.85
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				-339.97
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.22	-0.31	0.04	0.13
	(2) Diluted	0.22	-0.31	0.04	0.13

Notes : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.gagangases.com)

On behalf of the Board
Gagan Maheshwary, Managing Director
DIN 00320425

यूनियन बैंक		इन्दौर सिटी मुख्य शाखा :	
18/1 उपगंज एएमएम टॉवर,		लक्ष्मीनारायण दूध वाले के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश	
कब्जा सूचना नियम 8(1) (अचल संपत्ति हेतु)			
क्र.	ऋणी/सहऋणी/जमानतदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक कबजा सूचना अनुसार बकाया राशि
1.	1. श्री अवतार सिंह चावला 2. श्रीमती सुरजोति पति श्री अवतार सिंह चावला	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं भाग, आवासीय प्लॉट नं.105, प्लॉट नं.ए-10, पहली मंजिल, संस्कृति रेसीडेन्सी, 'संस्कृति रॉयल पार्क', ग्राम राऊत, इन्दौर, म.प्र., बंधककर्ता का नाम - श्री अवतार सिंह चावला, प्लॉट का क्षेत्रफल - 99.1 वर्गफीट, चर्तुसीमा : पूर्व : पैसेज, पश्चिम : रोड़, उत्तर : पैसेज के बाद प्लॉट नं. 104, दक्षिण : प्लॉट नं. 9-ए	18.10.2021 22.07.2022 ₹ 38,40,893.75 + ब्याज एवं अन्य खर्च
2.	1. श्री प्रकाश यादव 2. श्रीमती शशी यादव 3. कु. अक्षता यादव	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं भाग, प्लॉट नं.35 डी/डी/एस-2 स्क्रीन 78, सेक्टर डी, स्लाईस नं.2, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452001, संपत्ति मालिक - श्री प्रकाश यादव पिता कन्हैयालाल यादव, क्षेत्रफल - 150.1 वर्गफीट, चर्तुसीमा : पूर्व : पैसेज, पश्चिम : रोड़, उत्तर : पैसेज के बाद प्लॉट नं. 34 का भाग, पश्चिम : प्लॉट नं.36 का भाग, उत्तर : प्लॉट नं. 74/एल-2, 75/एल-2 एवं 76/एल-2, दक्षिण : रोड़	05.03.2022 22.07.2022 ₹ 12,69,142.40 + ब्याज एवं अन्य खर्च

दिनांक : 28.07.2022, स्थान : इन्दौर प्राधिकृत अधिकारी - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड		Aadhar Housing Finance Ltd			
कापिरिड कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069					
शुजालपुर शाखा : प्रथम मंजिल, मकान नं. 371, IIFL के उपर, बृज नगर चौराहा, सिटी मंडी रोड, शुजालपुर 465333 मध्यप्रदेश प्राधिकृत अधिकारी : संदीप सिंह चौहान, मो. 8959910145					
क्र.	ऋणी(सी)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (MRP)	ब्याज जमा राशि (ईपीसी) (RP का 10%)
1	(एमलिकेशन नं. 00275598/ शुजालपुर शाखा) मोहम्मद हाफिज (ऋणी) मेहरुनिशा बी (सहऋणी) हरिसन खान (जमानतदार)	07-01-2022 एवं ₹ 7,21,214/-	प्लॉट नं. 61 7 सर्वे नं. 95 बार्ड नं. 11 हुनुमान मंदिर रोड अकोदिया मंडी जिला शावापुर मध्यप्रदेश 465223 स्थित संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, चर्तुसीमा : पूर्व : प्रताप का प्लाट, पश्चिम : हस्तिन खान का मकान, उत्तर : रोड़, दक्षिण : मूलचंद का प्लाट	₹ 6,48,000/- (रुपये छः लाख अठ्ठासठ हजार मात्र)	₹ 64,800/- (रुपये छः लाख अठ्ठासठ हजार आठ सौ मात्र)

सिक्वेट्राइजेशन एण्ड रिक्त-संरक्षण ऑफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्मेण्ट ऑफ सिक्वेट्राइ इंस्ट्रुमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी की ओर बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवल संपत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, जो कि मौलिक आधिपत्य में है, के "जहां है, जैसी है और जो है" के आधार पर बंध हेतु सीलबंद लिहाकों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारूप में ई-म्यूचुअल एवं केवाईसी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 29.08.2022 राय 5.00 बजे रहेगी। निविदाएं जो पूर्णतः विधिवत रूप से मरी नहीं जावेंगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी, को वैध किताब के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निस्सर कर दी जावेंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं 30.08.2022 को समय सायं 3.00 बजे है, निविदा को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोला जावेगा।
- ऋणी एवं जमानतदार को एतदनुसार विक्रय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है एवं वे, विक्रय के नियम एवं शर्तों के अनुसार, उपरोक्त सूचना वर्णित अवल संपत्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रेतागण को साथ ला सकेंगे।
- यह 30 दिनों का विक्रय नोटिस सफरफ्री एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उच्चारकर्ता (ओ), सह उच्चारकर्ता(ओ), जमानतदार(ओ) को दिया जाता है कि उपर वर्णित अवल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/भूमिगत किया गया है। आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (एचएफएल) सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया है, जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड की भौतिक कब्जा राशि के आधार पर देवा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रूप से, नीतामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है।
- अचल संपत्ति को सबसे ऊंची निविदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जावेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्तर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो, को स्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा। दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नहीं होगा।
- एचएफएल उपरोक्त दशवीं गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति की नीतामी "जहां है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है" के आधार पर की जावेगी।
- डिमांड डाफ्ट आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाए जावेंगे।
- नीतामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्नानुसार प्रारूप में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रारूप अधिकृत शाखा कार्यालय पर उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की लिखित ब्याज एवं प्रस्ताव के नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। बोली की अन्य नियम एवं शर्तें व अन्य जानकारी हेतु हमारी शाखा या वेबसाइट www.aadharhousing.com पर जाए। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें।

स्थान : मध्य प्रदेश दिनांक : 27.07.2022

राशि/- प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड